

## प्रेसनोट थाना रामगढताल दिनांक 23-02-2021

### **01 नफर शातिर चोर गिरफ्तार, लगभग 07 कुण्टल सरिया, 10020 रूपया नगद व एक अदद सिलाई मशीन बरामद**

पुलिस उपमहानिरीक्षक /वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा जनपद में अपराधों पर रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी कैण्ट के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक श्री जगत नारायण सिंह थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर मय उ0नि0 ब्रह्म कुमार उपाध्याय मय टीम को अंकुश लगाने एवं पर्दाफाश हेतु लगाया था। टीम द्वारा लगातार तलाश व दबिश की कार्यवाही की जा रही थी जिसके क्रम में थाना रामगढताल की पुलिस द्वारा दिनांक 23.02.2021 की रात्रि 01.05 बजे को मुखबिर की सूचना पर रामपुर हनुमान मन्दिर व चिड़ियाघर के बीच अभियुक्त रमेश पुत्र भजुराम नि0 रामपुर थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से लगभग 07 कुण्टल सरिया, 10020 रूपया नगद व एक अदद सिलाई मशीन बरामद किया गया। मु0अ0सं0 19/21 धार 379 भादवि0 से सम्बन्धित कुल लगभग 07 कुण्टल सरिया, 10,020 रूपया नगद बरामद कर घटना का खुलासा किया गया तथा मु0अ0सं0 71/21 धारा 457,380 भादवि0 में एक अदद सिलाई मशीन बरामद कर उक्त घटना का खुलासा किया गया। ये शातिर किस्म के चोर / नकबजन हैं जो घरों में सेंध लगाकर, ताला तोड़कर चोरी की घटनाओं को अन्जाम दिया करते हैं।

#### **गिरफ्तार अभियुक्त**

1. रमेश पुत्र भजुराम नि0 रामपुर थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर उम्र करीब 35 वर्ष

#### **आपराधिक इतिहास**

1. मु0अ0सं0 19/21 धार 379,411 भादवि0 थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर।
2. मु0अ0सं0 71/21 धारा 457,380,411 भादवि0 थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर।

#### **बरामदगी का विवरण व पंजीकृत अभियोग का विवरण**

1. लगभग 07 कुण्टल सरिया
2. 10,020 रूपया नगद
3. एक अदद सिलाई मशीन

#### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जगत नारायण सिंह थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 श्री ब्रह्म कुमार उपाध्याय थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 श्री अजय कुमार राय थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर
4. उ0नि0 श्री पुरूषोत्तम आनन्द सिंह थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर
5. का0 हरिशंकर यादव थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर
6. का0 दीपक कुमार यादव थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर